

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 23 अगस्त 2022

प्रश्न -1

निम्नलिखित में से किस बैंक ने स्टार्ट-अप का समर्थन करने के लिए भारत की पहली समर्पित शाखा शुरू की?

- A) SBI
- B) PNB
- C) इंडियन बैंक
- D) ICICI बैंक

सही उत्तर: A

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जल्द ही देश में स्टार्ट-अप के लिए बेंगलुरु में अपनी पहली प्रीमियम समर्पित शाखा खोलेगा। बैंक ने कहा कि नई शाखा शहर में स्टार्ट-अप कंपनियों को सुविधा और समर्थन देगी।

प्रश्न -2

निम्नलिखित में से किसे हाल ही में NaBFID के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है?

- A) के.वी. कामत
- B) पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
- C) राजकिरण राय
- D) एस. कृष्णन

सही उत्तर: C

राजकिरण राय को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) के नए प्रबंध निदेशक (MD) के रूप में नियुक्त किया गया है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 23 अगस्त 2022

प्रश्न -3

निम्नलिखित में से किस देश के केविन ओ'ब्रायन ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है?

- A) ऑस्ट्रेलिया
- B) इंग्लैंड
- C) आयरलैंड
- D) वेस्टइंडीज

सही उत्तर: C

आयरलैंड के हरफनमौला खिलाड़ी केविन ओ'ब्रायन ने 16 साल के करियर के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की पुष्टि की।

प्रश्न -4

निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय योजना (नमस्ते) योजना शुरू की है?

- A) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- B) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- C) श्रम और रोजगार मंत्रालय
- D) गृह मंत्रालय

सही उत्तर: A

नमस्ते, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो MoSJE और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) की संयुक्त पहल के रूप में है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 23 अगस्त 2022

प्रश्न -5

भारत की पहली गोल्ड और सिल्वर फंड योजना हाल ही में निम्नलिखित में से किस म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा शुरू की गई थी?

- A) एक्सिस म्यूचुअल फंड
- B) एडलवाइस म्यूचुअल फंड
- C) HDFC म्यूचुअल फंड
- D) SBI म्यूचुअल फंड

सही उत्तर: B

एडलवाइस म्यूचुअल फंड भारत की पहली योजना शुरू करने वाला है जो 24 अगस्त को एकल फंड के माध्यम से सोने और चांदी में निवेश की पेशकश करती है।

प्रश्न -6

निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत के 76वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डेबिट कार्ड का एक विशेष संस्करण लॉन्च किया?

- A) बैंक ऑफ बड़ौदा
- B) बैंक ऑफ इंडिया
- C) केनरा बैंक
- D) इंडियन ओवरसीज बैंक

सही उत्तर: D

इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए डेबिट कार्ड "IOB Rupay Select Card" का एक विशेष संस्करण लॉन्च किया।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 23 अगस्त 2022

प्रश्न -7

निम्नलिखित में से किसे भारती एयरटेल के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) सुशील अग्रवाल
- B) रविंदर ठक्कर
- C) गोपाल विट्टल
- D) बालेश शर्मा

सही उत्तर: C

भारती एयरटेल ने गोपाल विट्टल को एक फरवरी, 2023 से पांच साल की अवधि के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है।

प्रश्न -8

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) जुलाई 2022 में कितना गिर गया है?

- A) 14.93%
- B) 13.93%
- C) 12.93%
- D) 11.93%

सही उत्तर: B

जुलाई में भारत की थोक मुद्रास्फीति क्रमिक रूप से कम होकर 13.93 प्रतिशत पर आ गई, क्योंकि सब्जियां, दूध और ईंधन सस्ता हो गया, लेकिन 16वें महीने के लिए दोहरे अंकों में रहा।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 23 अगस्त 2022

प्रश्न -9

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IIFM) 2022 में निम्नलिखित में से किस श्रृंखला ने "सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला" पुरस्कार जीता?

- A) मुंबई डायरीज 26/11
- B) मिर्जापुर
- C) जलसा
- D) असुर

सही उत्तर: A

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IIFM) 2022 में "मुंबई डायरीज 26/11" श्रृंखला ने "सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला" का पुरस्कार प्राप्त किया।

प्रश्न -10

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IIFM) 2022 में निम्नलिखित में से किसने "सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार" प्राप्त किया है?

- A) कैटरीना कैफ
- B) साक्षी तंवर
- C) शेफाली शाह
- D) वाणी कपूर

सही उत्तर: C

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IIFM) 2022 में शेफाली शाह को फिल्म जलसा के लिए "सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार" मिला है।